



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]
No. 105]

नई दिल्ली, बुधस्मतिवार, जनवरी 24, 2008/माघ 4, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 24, 2008/MAGHA 4, 1929

• पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2008

का.आ. 142(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 386(अ), तारीख 16 मार्च, 2007, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 के 62.960 कि.मी. से 66.500 कि.मी. (जिरकपुर से परवानु सेक्शन और पिन्जौर-कालका-परवानु बाईपास) तक के भूखण्ड का निर्माण, (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 12 अप्रैल, 2007 को "दिव्या हिमाचल" (हिन्दी) और "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और, कुल 6 आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के 62.960 कि. मी. से 66.500 कि. मी. तक (पिंजौर-कालका-परवाना बाईपास सहित जीरकपुर-परवाना खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अधवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

| क्रम संख्या | जिला का नाम | तहसील का नाम | गाँव का नाम/एच. डी. संख्या | सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | भूस्वामियों/हितवांछ व्यक्तियों के नाम |
|-------------|-------------|--------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | सोलन | कसोली | (1) उप-महल टीपरा महल गुमान टीपरा - 949 | 1/1 | निजी | घासनी | 0—13—16 | बिरेन्द्र कुमार पुत्र धुन्नी सिंह 84/1316 भाग, लाल चंद पुत्र सोहन लाल 1232/1316 भाग |
| | | | | 1/2 | निजी | घासनी | 0—05—10 | हरबंस लाल पुत्र सोहन लाल |
| | | | | 2/4 | निजी | घासनी | 0—07—85 | यशपाल सिंह पुत्र बचना राम 1/2 भाग, सुदेश कुमारी-रमेश कुमारी पुत्रियां बचना राम बराबर 1/2 भाग |
| | | | | 2/5 | निजी | घासनी | 0—06—70 | यशपाल सिंह पुत्र बचना राम 1/2 भाग, सुदेश कुमारी-रमेश कुमारी पुत्रियां बचना राम बराबर 1/2 भाग |
| | | | | 3 | ग्राम पंचायत | गैर मुमकिन रास्ता | 0—00—86 | ग्राम पंचायत |
| | | | | 25 | निजी | बंजर अवल | 0—02—28 | मदनलाल पुत्र सोहनलाल |
| | | | | 26 | निजी | बंजर कदीम | 0—06—83 | मदनलाल पुत्र सोहनलाल |
| | | | | 27/1 | निजी | घासनी | 0—06—63 | मदनलाल पुत्र सोहनलाल |
| | | | | 27/2 | निजी | घासनी | 0—01—33 | श्रीमति चम्पा देवी पुत्री गरीबू |
| | | | | 27/3 | निजी | घासनी | 0—00—90 | दलीप कुमार पुत्र भीकम |
| | | | | 27/4 | निजी | घासनी | 0—01—68 | राजा राम पुत्र विभूति |
| | | | | 27/5 | निजी | घासनी | 0—01—68 | राकेश कुमार-रमेश कुमार पुत्रराम तथा श्रीमति बंदना पुत्री तथा राम प्यारी विधवा ज्ञान लाल बराबर भाग |
| | | | | 27/6 | निजी | घासनी | 0—03—44 | राकेश कुमार-रमेश कुमार पुत्रराम तथा श्रीमति बंदना पुत्री तथा राम प्यारी विधवा ज्ञान लाल बराबर भाग |
| | | | | 28/1 | निजी | बंजर अवल | 0—03—50 | श्रीमति चम्पा देवी पुत्री गरीबू |
| | | | | 28/2 | निजी | बंजर अवल | 0—07—99 | राकेश कुमार-रमेश कुमार पुत्रराम तथा श्रीमति बंदना पुत्री तथा राम प्यारी विधवा ज्ञान लाल बराबर भाग |
| | | | | 30 | निजी | बंजर अवल | 0—00—60 | राकेश कुमार-रमेश कुमार पुत्रराम तथा श्रीमति बंदना पुत्री तथा राम प्यारी विधवा ज्ञान लाल बराबर भाग |

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------|------|---------------------|---------------------------|----------------|--|
| | | | 31/1 | निजी | गैर मुमकिन नासा | 0-05-09 | कुल भाग 24-तारलेचन पुत्र मुनी लाल-11 भाग, नवन लाल-लाल चंद-ज्ञान लाल-हरबंस लाल पुतरान सोहन लाल बराम्बर भाग -12, जमर नाथ-बड़ी दास-ओमप्रकाश-मोहिंदर प्रकाश पुत्र तथा श्रीमती सीता-निर्मला पुत्रियां तथा श्रीमती रामकली विधवा कर्न दास बराम्बर 1 भाग |
| | | | 83 | निजी | बंजर कदीम और चरनाद | 0-16-80 | श्रीमति सकुंतला देवी विधवा चुन्नी सिंह |
| | | | | | कुल | 00-92-42 | |
| | | | | | | (हेक्टेयर में) | |
| सोसन | कसोली | (2) मुम्ना - 949 | 92 | निजी | बंजर कदीम | 0-08-74 | नीरज पुत्र मनोहर लाल कुल 2818 भाग खेवट नम्बर 15 के अनुसार -2730 भाग, पुष्पी सिंह पुत्र बड़ा सिंह 88 भाग |
| | | | 130 | निजी | घासनी | 0-00-58 | आत्मा सिंह पुत्र काहन सिंह |
| | | | 131 | निजी | घासनी | 0-06-76 | पतराम पुत्र रिङ्कू राम |
| | | | 132 | निजी | घासनी | 0-08-97 | परसराम पुत्र रिङ्कू राम |
| | | | 133 | निजी | घासनी | 0-86-56 | कुल 10 भाग-रफूबीर सिंह पुत्र सोपाल सिंह 2 भाग, प्रेम सिंह पुत्र गुरदत्त सिंह 2 भाग, गुलशन लाल पुत्र बलमुकन्द 1 भाग, रोबिन पुत्र पुरजोतम 1 भाग, नीरज पुत्र मनोहर लाल 2 भाग, श्रीमति कचन देवी पत्नी मनोहर लाल 2 भाग |
| | | | | | कुल | 1-11-61 | |
| | | | | | | (हेक्टेयर में) | |
| सोसन | कसोली | (3) कामली - 948 | 367 | हिमाचल प्रदेश सरकार | गैर मुमकिन चारागाह - पेड़ | 0-84-37 | ठकदारान देह |
| | | | 368 | निजी | गैर मुमकिन घासनी | 0-48-95 | गुरिंदर नाथ-महिंदर नाथ पुत्र रामकिशन बराम्बर 1/2 भाग तथा श्रीमति इंदानी पुत्री 1/2 भाग |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------|------------------------|------------------------------|----------|--|
| | | | 369 | निजी | गैर मुमकिन बनबांस्त | 0—50—33 | अरुण पुत्र किशन लाल 1/6 भाग, श्रीमति मंजू पत्नी अरुण 1/6 भाग, मनवीर पुत्र नरिंदर सिंह 2/3 भाग |
| | | | 371 | निजी | गैर मुमकिन बनबांस्त | 0—04—11 | श्रीमति स्नेहलता पत्नी राकेश 2696/2846 भाग, सरसवती देवी पुत्री रामप्रसाद 150/2846 भाग |
| | | | 372 | निजी | गैर मुमकिन चारागाह | 0—00—88 | गुरिंदर नाथ-महिंदर नाथ पुत्र श्री रामकिशन बराबर 1/2 भाग तथा श्रीमति इंद्रानी पुत्री 1/2 भाग |
| | | | 374 | निजी | गैर मुमकिन बनबांस्त | 0—08—70 | श्रीमति विनोद कुमारी पत्नी गोविंदर नाथ वासी धरमपुर |
| | | | 375 | निजी | गैर मुमकिन बनबांस्त | 0—03—70 | पुरेन्द्र कुमार पुत्र किशन लाल |
| | | | 376 | निजी | गैर मुमकिन बनबांस्त | 0—10—00 | हरदयाल सिंह पुत्र मुंजी वासी बल्लोय तहसील बिलासपुर |
| | | | 378 | निजी | गैर मुमकिन बनबांस्त | 0—12—42 | स्वतंत्र कुमार पुत्र ब्रिजलाल |
| | | | 392 | हिमाचल प्रदेश सरकार | गैर मुमकिन चारागाह - पेड़ | 0—41—11 | हकदारान देह |
| | | | 522/442 | हिमाचल प्रदेश सरकार | गैर मुमकिन चारागाह - पेड़ | 1—49—01 | हकदारान देह |
| | | | 443 | निजी | बंजर कदीम | 0—44—76 | मैसर्ज स्वन्ना क्वार्टर्ज लि० |
| | | | 525/451 | निजी | बंजर कदीम | 0—00—58 | कुल 36 भाग : (1) टीपराम पुत्र मलकाराम खेवट नम्बर 1 बराबर 12 भाग (2) भगताराम पुत्र तुला राम खेवट नम्बर 2 बराबर 12 भाग (3) पुरन-मोहन सिंह पुत्र जगननाथ बराबर 12 भाग |
| | | | 455 | हिमाचल प्रदेश सरकार | गैर मुमकिन स्कूल | 0—14—96 | हिमाचल सरकार, आयुक्त स्कूल को लीज |
| | | | 468 | हिमाचल प्रदेश सरकार | गैर मुमकिन चारागाह | 00—62—14 | हिमाचल प्रदेश सरकार और ताबे हकूक बरतन दारान |
| | | | 469 | हिमाचल प्रदेश सरकार | कृषि | 0—18—13 | हिमाचल प्रदेश सरकार और कृषि विभाग |
| | | | 470 | हिमाचल प्रदेश सरकार | बंजर कदीम | 00—34—62 | हिमाचल प्रदेश सरकार और कृषि विभाग |
| | | | 472 | हिमाचल प्रदेश सरकार | गैर मुमकिन चारागाह | 1—66—77 | हिमाचल प्रदेश सरकार और हकदारान देह |
| | | | 473 | निजी | गैर मुमकिन बनबांस्त | 0—08—29 | पवन कुमार-गरीश-मनोज पुत्ररान बडी नाथ बराबर भाग |
| | | | 478 | हिमाचल प्रदेश सरकार | बंजर अवल | 0—14—80 | हिमाचल प्रदेश सरकार और अतिक्रमक |
| | | | | | कुल | 07—78—63 | |

| | | | | | | | बीके-बिसवे | |
|--|------|-------|----------------|-----------|--------|------------------------|------------------|--------------------------|
| | सोलन | कसोली | (4) देल्ली-131 | 235/10 | सरकारी | बंजर कदीम | 0-19 | कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश |
| | | | | 238/13 | सरकारी | बंजर कदीम | 0-3 | कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश |
| | | | | 239/14 | सरकारी | बंजर कदीम | 0-12 | कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश |
| | | | | 244/40/19 | सरकारी | बंजर जदीद एवं टोड़ा | 1-2 | कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश |
| | | | | 245/41/19 | सरकारी | घासनी | 3-1 | कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश |
| | | | | 249/23 | सरकारी | बंजर कदीम | 0-4 | कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश |
| | | | | 250/24 | सरकारी | घासनी | 1-17 | कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश |
| | | | | 251/90/25 | सरकारी | बंजर जदीद | 0-1 | कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश |
| | | | | 256/28 | सरकारी | बंजर कदीम | 4-4 | कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश |
| | | | | | | कुल हैक्टेयर | 12-3 01-02-43 | |

[फा. सं. भारतरात्रा/बीओटी/11019/09/2003/एलए]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2008

S.O. 142(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 386 (E), dated the 16th March, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 22 on the stretch of land from Km 62.960 to Km 66.500 (Zirakpur-Parwanoo Section and Pinjore-Kalka-Parwanoo bypass) in Solan district, in the State of Himachal Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Divya Himachal" (Hindi) and in "The Hindustan Times" (English), both dated the 12th April, 2007; under sub-section (3) of section 3 A of the said Act;

And whereas total 06 objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3 D of the said act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from Km 62.960 to Km 66.500 (Zirakpur-Parwanoo Section and Pinjore-Kalka-Parwanoo bypass) of the National Highway No. 22 in the State of Himachal Pradesh.

| Serial number | Name of the district | Name of the taluk | Name of the village and H.B. No. | Survey number | Type of land | Nature of land | Area (in Hectares) | Name of the land owner/Interested persons |
|---------------|----------------------|-------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------|--------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | Hac-Are-Cent | |
| 1 | Solan | Kasouli | (1) TIPRA--949 Up Mehal Tipra, Mehal Gumman, | 1/1 | Private | Ghasni | 0—13—16 | Virender Kumar S/o Chunni Singh 84/1316 share, Lal Chand S/o Sohan Lal 1232/1316 share |
| | | | | 1/2 | Private | Ghasni | 0—05—10 | Harbans Lal S/o Sohan Lal |
| | | | | 2/4 | Private | Ghasni | 0—07—85 | Yashpal Singh S/o Bachna Ram ½ share, Sudesh Kumari—Ramesh Kumari Ds/o Bachna Ram equal share ½ |
| | | | | 2/5 | Private | Ghasni | 0—06—70 | Yashpal Singh S/o Bachna Ram ½ share, Sudesh Kumari—Ramesh Kumari Ds/o Bachna Ram equal share ½ |
| | | | | 3 | Gram Panchaya t | Gar Mumkin Rasta | 0—00—86 | Gram Panchayat |
| | | | | 25 | Private | Bangar Awal | 0—02—28 | Madan Lal S/o Sohan Lal |
| | | | | 26 | Private | Banjar Kadeem | 0—06—83 | Madan Lal S/o Sohan Lal |
| | | | | 27/1 | Private | Ghasni | 0—06—63 | Madan Lal S/o Sohan Lal |
| | | | | 27/2 | Private | Ghasni | 0—01—33 | Smt. Champa Devi D/o Gribu |
| | | | | 27/3 | Private | Ghasni | 0—00—90 | Dalip Kumar S/o Bhikam |
| | | | | 27/4 | Private | Ghasni | 0—01—68 | Raja Ram S/o Vibhuti |
| | | | | 27/5 | Private | Ghasni | 0—01—68 | Rakesh Kumar- Ramesh Kumar Sons and Smt. Bandna Daughter and Ram Piyari Wd/o Sham Lal in equal share |
| | | | | 27/6 | Private | Ghasni | 0—03—44 | Rakesh Kumar- Ramesh Kumar Sons and Smt. Bandna Daughter and Ram Piyari Wd/o Sham Lal in equal share |
| | | | | 28/1 | Private | Bangar Awal | 0—03—50 | Smt. Champa Devi D/o Gribu |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|-----|-----|--------------------|------|---------|---------------------------|---------------------|--|
| | | | | 28/2 | Private | Bangar Awal | 0—07—99 | Rakesh Kumar- Ramesh Kumar Sons and Smt. Bandna Daughter and Ram Piyari Wd/o Sham Lal in equal share |
| | | | | 30 | Private | Bangar Awal | 0—00—60 | Rakesh Kumar- Ramesh Kumar Sons and Smt. Bandna Daughter and Ram Piyari Wd/o Sham Lal in equal share |
| | | | | 31/1 | Private | Gair Mumkin Nala | 0—05—09 | Total share 24 = Tarlochan S/o Muni Lal = 11 share, Madan Lal-Lal Chand-Sham Lal-Harbans Lal S/o Sohan Lal equal share = 12 share, Amar Nath-Badri Das-Om Parkash-Mohinder Parkash sons and Smt. Sheela-Nirmala daughters and Smt. Ram Kali Wd/o Karam Das equal 1 share |
| | | | | 83 | Private | Banjar Kadeem and Charand | 0—16—80 | Smt. Shakuntala Devi Wd/o Chunni Singh |
| | | | | | | TOTAL | 00—92—42 | |
| | | | | | | | Hac-Are-Cent | |
| | | | (2) GUMMA-- 949 | 92 | Private | Banjar Kadeem | 0—08—74 | Niraj S/o Manohar Lal Total 2818 share as per Kewat No. 15 = 2730 share. Prithi Singh S/o Jhanda Singh 88 share |
| | | | | 130 | Private | Ghasni | 0—00—58 | Atma Singh S/o Kahan Singh |
| | | | | 131 | Private | Ghasni | 0—06—76 | Patram S/o Ridku Ram |
| | | | | 132 | Private | Ghasni | 0—08—97 | Paras Ram S/o Ridku Ram |
| | | | | 133 | Private | Ghasni | 0—86—56 | Total 10 share Ragubir Singh S/o Gopal Singh 2 share, Prem Singh S/o Gurdut Singh 2 share, Gulshan Lal S/o Balmukand 1 share, Robin S/o Purshotam 1 share, Niraj S/o Manohar Lal 2 share Smt. Kanchan Devi W/o Manohar Lal 2 share |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 01—11—61 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|-----|-----|---------------------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| | | | | | | | Hac-Are-Cent | |
| | | | (3) KAMLI--- 948 | 367 | H.P. Govt. | Gair Mumkin Charagah & Trees | 0—84—37 | Tabe Hakook Bartan daran. |
| | | | | 368 | Private | Gair Mumkin Ghasni | 0—48—95 | Gurinder Nath-Mohinder Nath Ss/o Ram Kishan in equal share ½ and Smt. Indrani Daughter ½ |
| | | | | 369 | Private | Gair Mumkin Banbans | 0—50—33 | Arun S/o Kishan Lal 1/6, Smt. Manju W/o Arun 1/6, Manvir S/o Narinder Singh 2/3 share |
| | | | | 371 | Private | Gair Mumkin Banbans | 0—04—11 | Smt. Saneh Lata W/o Rakesh 2696/2846 share, Sarasvati Devi D/o Ram Parshad 150/2846 share |
| | | | | 372 | Private | Gair Mumkin Charagah | 0—00—88 | Gurinder Nath— Mohinder Nath Ss/o Ram Kishan ½ share, Smt. Indrani D/o Ram Kishan ½ share |
| | | | | 374 | Private | Gair Mumkin Banbans | 0—08—70 | Smt. Vinod Kumari W/o Govinder Nath R/o Dharampur. |
| | | | | 375 | Private | Gair Mumkin Banbans | 0—03—70 | Purender Kumar S/o Kishan Lal |
| | | | | 376 | Private | Gair Mumkin Banbans | 0—10—00 | Hardayal Singh S/o Munshi r/o Blong Tehsil Bilaspur. |
| | | | | 378 | Private | Gair Mumkin Banbans | 0—12—42 | Sawtantar Kumar S/o Brij Lal |
| | | | | 392 | H.P. Govt. | Gair Mumkin Charagah & Trees | 0—41—11 | Tabe Hakook Bartan daran |
| | | | | 522/442 | H.P. Govt. | Gair Mumkin Charagah & Trees | 1—49—01 | Tabe Hakook Bartan daran |
| | | | | 443 | Private | Banjar Kadeem | 0—44—76 | M/s Khanna Quartz Ltd. |
| | | | | 525/451 | Private | Banjar Kadeem | 0—00—58 | Total share 36 1) Teep Ram S/o Malka Ram vide khewat No. 1 = 12 share. 2) Bhagat Ram S/o Tula Ram vide Khewat No. 2 = 12 share. 3) Puran-Mohan Singh Ss/o Jagan Nath = 12 share. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|-----|-----|-----|---------------|-----------|------------|----------------------|-----------------|--|
| | | | | 455 | H.P. Govt. | G.M. School | 0—14—96 | H.P. Govt. and Leased to Eicher School |
| | | | | 468 | H.P. Govt. | Gair Mumkin Charagah | 00—62—14 | Govt. of Himachal Pradesh and Tabe Hakook Bartan daran |
| | | | | 469 | H.P. Govt. | Agriculture | 0—18—13 | HP Govt. Agriculture Department. |
| | | | | 470 | H.P. Govt. | Banjar Kadeem | 00—34—62 | Govt. of Himachal Pradesh and Agriculture Deptt. |
| | | | | 472 | H.P. Govt. | Gair Mumkin Charagah | 1—66—77 | Govt. of Himachal Pradesh and Tabe Hakook Bartan daran |
| | | | | 473 | Private | Gair Mumkin Banbans | 0—08—29 | Pawan Kumar—Garish—Manoj Ss/o Badri Nath equal share |
| | | | | 478 | H.P. Govt. | Banjar Awal | 0—14—80 | Govt. of Himachal Pradesh and under illegal possessor |
| | | | | | | TOTAL | 07—78—63 | |
| | | | | | | | B—B | |
| | | | (4) DELHI—131 | 235/10 | Govt. | Banjar Kadeem | 0—19 | Agriculture Department of Himachal Pradesh. |
| | | | | 238/13 | Govt. | Banjar Kadeem | 0—3 | Agriculture Department of Himachal Pradesh. |
| | | | | 239/14 | Govt. | Banjar Kadeem | 0—12 | Agriculture Department of Himachal Pradesh. |
| | | | | 244/40/19 | Govt. | Banjar Jadeed & Toda | 1—2 | Agriculture Department of Himachal Pradesh. |
| | | | | 245/41/19 | Govt. | Ghasani | 3—1 | Agriculture Department of Himachal Pradesh. |
| | | | | 249/23 | Govt. | Banjar Kadeem | 0—4 | Agriculture Department of Himachal Pradesh. |
| | | | | 250/24 | Govt. | Ghasani | 1—17 | Agriculture Department of Himachal Pradesh. |
| | | | | 251/90/25 | Govt. | Banjar Jadeed | 0—1 | Agriculture Department of Himachal Pradesh. |
| | | | | 256/28 | Govt. | Banjar Kadeem | 4—4 | Agriculture Department of Himachal Pradesh. |
| | | | | | | TOTAL | 12—3 | |
| | | | | | | Hectare | 01—02—43 | |

[F. No. NHA/BOT/11019/09/2003/LA]

PRABHAKAR, Dy. Secy.